



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

प्रथम सत्र

अंक-02

रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019

(पौष 17, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

माननीय राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान जन गण मन की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण दिया ।

(राष्ट्रगान जन गण मन की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदया ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसरण में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

2. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री अमरजीत भगत, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 9, 10 एवं 11 जनवरी, 2019 की तिथियाँ निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 को सायं 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई।

3. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री विवेक तन्खा, राज्यसभा सदस्य उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है।

4. पृच्छा

सदस्य श्री शिवरतन शर्मा तथा अन्य सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधान सभा परिसर के समीप, जहां धारा 144 प्रभावशील है, ऐसे स्थान में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भविष्य में ऐसा न हो इस संबंध में निर्देश दिये जायें।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, सबको हटा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उनके द्वारा सुरक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाया जाकर उस पर आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

5. मंत्रियों का परिचय

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का परिचय कराया।

6. वित्तीय वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 की तिथि निर्धारित की ।

पूर्वाह्न 11.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 (पौष-18, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा